

PRICE CONTROL BILL*

श्री जार्ज फरनेन्डीस (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि सभी अत्यावश्यक उपभोग वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to control the prices of all essential consumer articles."

The motion was adopted.

श्री जार्ज फरनेन्डीस : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

CIVIL LIBERTIES COMMISSIONS BILL*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि वैधता तथा संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल वैयक्तिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन की जांच करने के लिए नागरिक स्वाधीनता आयोगों की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of Civil Liberties Commissions to investigate violation of legality and fundamental personal freedoms guaranteed by the Constitution."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

LEADER OF THE OPPOSITION BILL*

श्री मनुभाई पटेल (इर्षाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तावत करता हूँ कि लोक-सभा तथा राज्य-सभा में विरोधी दलों के नेता के प्रभावी ढंग से कार्य

करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the effective functioning of the Leader of the Opposition in Lok Sabha and in Rajya Sabha."

The motion was adopted.

श्री मनुभाई पटेल : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Umanath—absent; Shri Ramani—absent.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL* (Amendment of Article 222)

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक पेश करता हूँ।

15.11 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

VIRES OF RULES 155, 157 AND 158 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल, 1970 को जब मेरे संविधान विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर वोट लिया गया तब विभाजन में उस विधेयक को 9/10 में भी अधिक बहुमत मिला, यानी उसके हक में 213 लोगों ने और विरोध में सिर्फ 31 लोगों ने वोट दिया। इस विधेयक के द्वारा संविधान की दफा 314 के तहत आई० सी० ए० अफसरों को जो विशेष सुविधाएं